



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं0 पटना 354) पटना, शुक्रवार, 8 मार्च 2019

---

सं0 17-योजना (अवधि विस्तार)-25 / 2019-315  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

#### संकल्प

27 फरवरी 2019

**विषय —** दिनांक 09.10.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-35 में स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त करते हुए एवं दिनांक 25.02.2019 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या 50 में स्वीकृत प्रस्ताव बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू-अभिलेख एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP/DILRMP) को चालू रखते हुए वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक 04 (चार) वर्ष के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु राज्यांश **94415.44** लाख रुपये (नौ अरब चौवालीस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार रुपये) तथा केन्द्रीय अंशदान की राशि **17407.07** लाख रुपये (एक अरब चौहत्तर करोड़ सात लाख सात हजार रुपये) अर्थात् राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित कुल राशि **111822.51** लाख रुपये (ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार रुपये) के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 8946 (नियमित पद-1318, पूर्व से संविदा पद -191 एवं नव सृजित संविदा पद-7437) पदों के अवधि विस्तार/पद सृजन की स्वीकृति।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में दिनांक 19.04.2012 को योजना प्राधिकृत समिति तथा दिनांक-15.05.2012 को मंत्रिपरिषद् द्वारा 3 वर्षों यथा 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (तीन वर्षों) के लिए स्वीकृत प्राप्त योजना, जिसमें अराजपत्रित एवं राजपत्रित कुल 3486 पदों की स्वीकृति प्राप्त योजना को चालू रखते हुए अगले तीन वर्षों यथा-2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दिनांक 11.05.2015 को योजना प्राधिकृत समिति एवं दिनांक 16.06.2015 को मंत्रिपरिषद् द्वारा प्राप्त थी। पुनः दिनांक 12.09.2018 को लोक वित्त समिति से आगामी दो वर्षों यथा- 2018-19 से 2019-20 एवं दिनांक 09.10.2018 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गई।

सर्वे/री-सर्वे योजना पूर्णतः तकनीक पर आधारित कार्य है, अतः उक्त योजना को तय सीमा अर्थात् 2018-19 से 2021-22 तक पूर्ण करने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष पदाधिकारी/कर्मियों की सेवा लेने का प्रस्ताव है। इस हेतु सिविल अभियंत्रण में डिग्री/डिप्लोमाधारी एवं अमानत में डिप्लोमा/आई0टी0आई0 से सर्वेयर के प्रशिक्षण में

सफलता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों का संविदा पर नियोजन करते हुए राज्य के सभी 534 अंचलो में सर्वे/री-सर्वे कराया जायेगा।

(2) **अनुमानित व्यय :-** बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP/DILRMP) के अन्तर्गत चार वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक होने वाले राज्यांश की राशि 94415.44 लाख रुपये (नौ अरब चौवालीस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार रुपये) एवं केन्द्रांश की राशि 17407.07 लाख रुपये (एक अरब चौहत्तर करोड़ सात लाख सात हजार रुपये मात्र) अर्थात् राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित 111822.51 लाख रुपये (ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार रुपये) मात्र का व्यय निम्न अनुसार किया जायेगा :-

क्र० सं०	अवयव का नाम	वित्तीय वर्षवार बजट उपबंध प्रस्ताव (राशि लाख रुपये में)				कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
	वर्षवार	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	स्थापना मद में व्यय	2200.00	2600.00	2900.00	3200.00	10900.00
2	स्थापना मद से भिन्न मद में व्यय	3927.36	9927.91	29797.35	29787.35	73439.97
3	राज्यांश मैचिंग ग्राण्ट	0.01	2411.49	2411.49	—	4822.99
4	अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार	733.26	1504.83	257.20	257.19	2752.48
5	राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटिजेशन	—	2500.00	—	—	2500.00
	राज्यांश का योग (क)	6860.63	18944.23	35366.04	33244.54	94415.44
6	केन्द्रांश की राशि (ख)	0.01	8772.00	8635.06	—	17407.07
	महायोग राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित (क+ख)	6860.64	27716.23	44001.10	33244.54	111822.51
(ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार) रुपये मात्र						

(3) **पदों का सृजन/अवधि विस्तार :-** लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगामी चार वर्षों यथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए निम्न तालिका अनुसार 1318 नियमित पदों का अवधि विस्तार, पूर्व से सृजित संविदा पद में से कतिपय संविदा पदों का प्रत्यर्पण एवं शेष का अवधि विस्तार तथा 7437 नवसृजित पदों का सृजन किया गया है :-

क्र० सं०	पदनाम	पूर्व से स्वीकृत नियमित पद	पूर्व से स्वीकृत संविदा पद में से कतिपय पदों का प्रत्यर्पण	पूर्व से स्वीकृत संविदा पद में से कतिपय पदों एवं संख्या को प्रत्यर्पण के पश्चात् शेष संविदा पद अवधि विस्तार हेतु	प्रस्तावित नवसृजित संविदा पद	स्वीकृति हेतु कुल प्रस्तावित संविदा पद (5+6)	नियमित पद के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु कुल प्रस्तावित पद	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित अवधि विस्तार एवं संविदा पद सहित कुल संख्या (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बंदोबस्त पदाधिकारी	38	—	—	—	—	38	38
2	प्रभारी पदाधिकारी	38	—	—	—	—	38	38
3	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी	60	439	48	—	48	60	108
	विशेष सर्वेक्षण	—	—	—	275	275	—	275

क्र० सं०	पदनाम	पूर्व से स्वीकृत नियमित पद	पूर्व से स्वीकृत संविदा पद में से कतिपय पदों का प्रत्यर्पण	पूर्व से स्वीकृत संविदा पद में से कतिपय पदों एवं संख्या को प्रत्यर्पण के पश्चात् शेष संविदा पद अवधि विस्तार हेतु	प्रस्तावित नवसृजित संविदा पद	स्वीकृति हेतु कुल प्रस्तावित संविदा पद (5+6)	नियमित पद के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु कुल प्रस्तावित पद	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित अवधि विस्तार एवं संविदा पद सहित कुल संख्या (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी							
4	अंचल निरीक्षक सह कानूनगो	72	475	—	—	—	72	72
	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	—	—	—	550	550	—	550
5	प्रधान लिपिक एवं लिपिक	70	—	—	—	—	70	70
6	मोहररि	294	—	—	—	—	294	294
	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	—	—	—	550	550	—	550
7	प्रारूपक	77	483	—	—	—	77	77
8	अमीन/सर्वेयर	160	323	117	—	117	160	277
	विशेष सर्वेक्षण अमीन	—	—	—	4950	4950	—	4950
	अमीन	—	—	—	550	550	—	550
9	चालक	16	—	—	—	—	16	16
10	अनुसेवक/ जंजीर वाहक	493	307	—	—	—	493	493
11	कार्यपालक सहायक	—	—	—	275	275	—	275
12	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	—	—	26	12	38	—	38
13	आई0टी0 ब्याय	—	—	—	275	275	—	275
	कुल योग	1318	2027	191	7437	7628	1318	8946

(4) (क) बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मानदेय पर आधारित विशेष सर्वेक्षण कानूनगों एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पद पर नियोजन में 40 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा।

(ख) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मानदेय पर आधारित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के संविदा पद पर नियोजन में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा।

(5) नियोजन एवं पारिश्रमिक भुगतान प्राधिकार :— सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य हेतु संविदा पर नवसृजित पद यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगों, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं अमीन का नियोजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/बिहार विकास मिशन/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एवं पारिश्रमिकी का भुगतान भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/बिहार विकास मिशन/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी गई राशि से बिहार विकास मिशन/भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा किया जायेगा एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 ब्याय का नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से तथा कार्यपालक सहायक का नियोजन जिला समाहर्ता के पैनल से किया जायेगा। उक्त पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय निम्नवत् है :—

क्र०सं 0	पदनाम	पदों की संख्या	नियोजन प्राधिकार	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता	न्यूनतम कार्य अनुभव	सरकार पर पड़ने वाला प्रतिकर्मी व्यय भार (EPF&ESI सहित)	अनुमानित कुल वार्षिक व्यय	संविदा नियोजन में वेटेज	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	275	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) / बिहार विकास मिशन / बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक+2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव	दो वर्ष का सरकारी / निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव	59000 /— (मानदेय 52202. 50, EPF&ESI सरकार का अंशदान— 2797. 50, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति —4000)	19,47,70,000 /—	1. मैट्रिक—10 2. इन्टर—15 3. स्नातक—50 4. स्नातकोत्तर—5 5. अनुभव— 20	(1) न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय
2	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	550		सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा +2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव	दो वर्ष का सरकारी / निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव	36000 /— (मानदेय 29202. 50, EPF&ESI सरकार का अंशदान— 2797. 50, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति —4000)	23,76,00,000 /—	1. मैट्रिक—10 2. डिप्लोमा—70 3. अनुभव— 20	
3	विशेष सर्वेक्षण अमीन	4950		सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा	—	31000 /— (मानदेय 24202. 50, EPF&ESI सरकार का अंशदान— 2797. 50, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति —4000)	1,84,14,00,000 / —	1. मैट्रिक—10 2. डिप्लोमा—90	
4	अमीन	550		सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या आई0टी0 आई0 से सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल	—	22000 /— (मानदेय 15345.00, EPF&ESI सरकार का अंशदान— 2655, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति —4000)	14,52,00,000 /—	1. मैट्रिक—10 2. डिप्लोमा / आई0 टी0 आई0 —90	(2) स्तम्भ संख्या—7 में अंकित नियोजित कर्मियों हेतु पारिश्रमिकी / मानदेय में यदि राज्य सरकार / विभाग द्वारा कोई संशोधन / परिवर्तन (वृद्धि / कमी) किया जाता है तो उक्त नियोजित कर्मियों को संशोधित / परिवर्तित (वृद्धि / कमी) पारिश्रमिकी / मानदेय अनुमान्य किया जायेगा।

क्र०सं 0	पदनाम	पदों की संख्या	नियोजन प्राधिकार	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता	न्यूनतम कार्य अनुभव	सरकार पर पड़ने वाला प्रतिकर्मी व्यय भार (EPF&ESI सहित)	अनुमानित कुल वार्षिक व्यय	संविदा नियोजन में वेटेज	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	लिपिक / विशेष सर्वेक्षण लिपिक	550		स्नातक	—	25000 /— प्रति माह प्रति कर्मी	16,50,00,000 /—	1. मैट्रिक—10 2. इन्टर—15 3. स्नातक—70 4. स्नातकोत्तर—05	—
6	कार्यपालक सहायक	275	जिला पैनल से	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा निर्धारित	—	13000 /— प्रति माह प्रति कर्मी	4,29,00,000 /—	—	—
7	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	12	बेल्ट्रॉन के माध्यम से	बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित	—	25000 /— प्रति माह प्रति कर्मी	36,00,000 /—	—	—
8	आई0टी0 ब्याय	275			—	16118 /— प्रति माह प्रति कर्मी	5,31,89,400 /—	—	—
कुल योग :—		7437					2,68,36,59,400 /	—	—

(6) राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटাইजेशन में 25 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।

(7) संविदा पर नियोजित कर्मियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण संबंधित जिलों के समाहर्ता—सह—बन्दोबस्त पदाधिकारी/निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समन्वय से किया जाएगा।

(8) पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 1730 दिनांक 10.11.2018 को निरस्त किया जाता है।

**आदेश :—** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

आदेश से,  
ब्रजेश मेहरोत्रा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 354-571+300-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>